



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 वैशाख 1934 (श0)  
(सं0 पटना 203) पटना, बुधवार, 16 मई 2012

श्रम संसाधन विभाग

आदेश

8 मई 2012

सं0 5/आर0एल0-302/2011-श्र0सं0-1782—कार्यालय आदेश सं0 33, दिनांक 7.5.2012 जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति, औरंगाबाद के ज्ञापांक-260 मु0/स्था0 दिनांक 10.09.2011 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री अमित कुमार सिंह, पुत्र-स्व0 यशवंत कुमार सिंह, चौकीदार-सह-अनुसेवक, ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्र, देव, जिला-औरंगाबाद को चतुर्थ श्रेणी “समूह-घ” के पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री सिंह, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल परीक्षा वर्ष, 2010 में उत्तीर्ण हैं। अतः वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3/ए2-वे0पु0-02/2011-7099 दिनांक 01.08.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में पुनरीक्षित वेतन बैंड रु0 5200-20,200 एवं ग्रेड पे रु0 1800 में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्तों सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तथा ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्र, देव, जिला-औरंगाबाद के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अमित कुमार सिंह की जन्म तिथि 05.08.1991 है।
3. यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है और इसे किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है।
4. श्री सिंह पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगी तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलक्षियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेंगे होगा।
5. श्री सिंह को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
7. यह नियुक्ति श्री सिंह द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों एवं चरित्र प्रमाण-पत्र के सत्यापन के आधार पर की जा रही है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनके विरुद्ध कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

8. श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. श्री सिंह को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं हैं एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।

10. श्री सिंह पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या 2469, दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।

11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082, दिनांक 01 अप्रैल, 2003 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

आदेश से,  
धीरेन्द्र मोहन झा,  
श्रमायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 203-571+25-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>